



CLASS - VII HINDI II LANGUAGE NOTES FOR AUGUST MONTH { 2024-25 }

* पाठ - 6 आर्यभट्ट

* पाठ - 7 मातृभाषा की पहचान

* कविता - 8 कोयल

* अनुच्छेद लेखन- पुस्तकालय , हमारा तिरंगा झंडा

मुहावरे

पाठ - 6 - आर्यभट्ट

I शब्दार्थ -

1. जिज्ञासा - जानने की इच्छा - curiosity
2. परीक्षण - जाँच - experiment
3. सक्षम - समर्थ, शक्तिशाली - capable
4. सतत प्रयास - लगातार कोशिश - continuous attempt
5. उपग्रह - बड़े ग्रह की परिक्रमा करनेवाला छोटा ग्रह - satellite
6. योद्धा - लड़नेवाला - warrior
7. दूरबीन - दूर की चीजों को देखनेवाला यन्त्र - telescope
8. नक्षत्र - तारा - star
9. अंतरिक्ष - आकाश - space
10. वृत्त - गोल - round
11. व्यास - वृत्त के केन्द्र से होकर परिधि के दोनों चोरों की दूरी - diameter

II सही विकल्प चुनिए:-

1. आर्यभट्ट ने अपने अनुभव और विचारों को किस ग्रन्थ में संकलित किया है ? - आर्यभटीयम् ।
2. आर्यभट्ट ने स्थापित किया कि - पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ।

3. आर्यभट्ट ने इनमें से किसके बारे में सिद्धांत स्थापित नहीं किए ? - पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ।

III मौखिक प्रश्नोत्तर :-

1. आर्यभट्ट ने अपनी रचना पद्य में क्यों की ?

उ:- उस समय अधिकतर रचना पद्य या श्लोकों में ही लिखी जाती थी । इसलिए आर्यभट्ट ने अपनी रचना पद्य में की ।

2. आर्यभट्ट ने कौन - कौन सी खोजें की ?

उ :- * पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है ।

* तारामंडल स्थिर है ।

* चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं ।

* चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है ।

IV लिखित प्रश्नोत्तर :-

1. कैसे कह सकते हैं कि, आकाश हमेशा से मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है ?

उ:-*आकाश में चमकते सूर्य, चन्द्रमा और तारा के कारण वह हमेशा से मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रही है।

* अन्य ग्रह पर भी उसके जैसे लोग हो सकते हैं।

* इसलिए मनुष्य आकाश के गृह नक्षत्रों की खोजबीन करता रहा है।

2. आर्यभटीय को आज भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ क्यों माना जाता है ?

उ:- आर्यभटीय में गणित और ज्योतिष के ज्ञान वैज्ञानिक परख पर आधारित है, इसलिए उसे आज भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है।

3. आर्यभट्ट ने ऐसी कौन सी खोज की, जिसके कारण कंप्यूटर द्वारा गणना करने में आसानी हो गई ?

उ:- आर्यभट्ट ने शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित किया, जिसके कारण कंप्यूटर द्वारा गणना करने में आसानी हो गई।

4. सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के विषय में आर्यभट्ट का क्या मत था ?

उ:- * जब पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रग्रहण होता है ।

* चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्यग्रहण होता है।

5.- आर्यभट्ट को अंतरिक्ष जगत का गहन ज्ञान था - इस उक्ति की व्याख्या कीजिये ?

उ:- * ग्रह-नक्षत्रों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया।

*अंतरिक्ष जगत के बारे में नई - नई खोजें की।

भाषा से

1 इक , इत प्रत्यय वाले शब्द चुनकर लिखिए :-

1.इक - वैज्ञानिक , लौकिक 2.इत् - स्थापित , प्रमाणित, संकलित , आधारित

2. सामासिक पद में से द्विगु समास को चुनकर लिखिए:-

Answer :- शताब्दी, पंचवटी, तिरंगा, त्रिफला, नवरात्र, चतुर्भुज, पंचानन

3. पर्यायवाची शब्द लिखिए :-

1.आकाश-आसमान 2.पृथ्वी-भूमि 3.मनुष्य-मानव 4.धरती-धरा

4. वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए:- Answers

गणितज्ञ , संगीतज्ञ, ज्योतिषी, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, वैयाकरण

5. अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए :-

परिक्रमा - चारों ओर घूमना - चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है।

सक्षम - कार्य में समर्थ - वैभव वैज्ञानिक बनने में समर्थ है।

उपकरण - औजार- किसी भी उपकरण का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

विस्तृत - फैला हुआ - आर्यभट्ट को ज्योतिष का विस्तृत ज्ञान था।

जिज्ञासा - जानने की इच्छा - मनुष्य की जिज्ञासा ने ही उसे अंतरिक्ष में पहुँचाया।

6. सही विकल्प पर (√) लगाइए :-

क) सम्पादिका ख) रोहिणी ग) खगोलशास्त्री

पाठ - 7 - मातृभाषा की पहचान

। शब्दार्थ :-

1. मातृभाषा - परिवार की भाषा - Mother tongue

2. दरबार - राजसभा - Royal court
3. गर्व - अभिमान - Proud
4. अतिथि गृह - अतिथियों के ठहरने का भवन - Guest house
5. दर्द - पीड़ा - Pain
6. विद्वान - पंडित - Scholar man
7. हास -परिहास - हँसी - मज़ाक - Humour
8. दरबारी - दरबार के लोग - Courtier
9. काँटा - शूल - Thorn
10. बुद्धिमत्ता - समझदारी - Intelligence
11. अनुमान - अंदाजा - Guess

॥ सही विकल्प चुनिए :-

1. राजा कृष्णादेराय के दरबार में कौन आया था ? - ब्राह्मण
2. ब्राह्मण को कहाँ ठहराया गया ? - तेनालीरामन के घर
3. ब्राह्मण की मातृभाषा कौन सी थी ? - तमिल

III किसने किससे कहा ? ANSWERS:-

क.कृष्णदेव राय ने - ब्राह्मण से कहा। ख.अतिथि ने - कृष्णदेव राय से कहा।

ग.तेनालीरामन ने - कृष्णदेव राय से कहा। घ. ब्राह्मण ने - तेनालीरामन से कहा।

IV पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :- ANSWERS

क - विद्वान ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे। ख- तेनालीरामन ने ब्राह्मण के पाँव में काँटा चुभा दिया।

ग - ब्राह्मण "अम्मा अम्मा" कहकर चिल्लाने लगे।

V मौखिक प्रश्न उत्तर :-

1. राजा कृष्णदेवराय को किस बात का गर्व था ?

उ:- राजा कृष्णदेवराय को दरबारियों की योग्यता और विद्वत्ता पर गर्व था।

2. तेनालीरामन ने ब्राह्मण की मातृभाषा का पता कैसे लगाया ?

उ:- * तेनालीरामन ने जैसे ही, ब्राह्मण के पाँव में काँटा चुभाया, वे दर्द से अम्मा - अम्मा चिल्लाने लगे।

* इस से पता चला कि, उनकी मातृभाषा तमिल है।

VI लिखित प्रश्न उत्तर :-

1. ब्राह्मण ने कृष्णदेव राय से क्या बताने का आग्रह किया ?

उ:- ब्राह्मण ने पूछा कि, " क्या उनकी मातृभाषा कोई बता सकता है ?

2. दरबारी ब्राह्मण की मातृभाषा की पहचान क्यों नहीं कर पाए ?

उ:- ब्राह्मण मराठी , कोंकणी, तमिल, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं में बोलते थे, इसलिए दरबारी उनकी मातृभाषा पहचान नहीं पाए।

3. तेनालीरामन ने ब्राह्मण से किस बात के लिए क्षमा मांगी ?

उ:- तेनालीरामन ने ब्राह्मण के पैर में काँटा चुभा दिया। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा माँगी।

भाषा से.....

1. प्रत्यय पहचान कर लिखिए:-

1.स्वंत्रता - ता 2. चालाकी - ई 3. बलवान - वान 4. नैतिक - इक

2. विलोम शब्द लिखिए:-

1.दिन x रात 2.प्रश्न x उत्तर 3.प्रसन्न x अप्रसन्न

4. संतुष्ट x असंतुष्ट 5. विद्वान x मूर्ख 6. शुरू x खत्म

3. इन शब्दों के लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखिए:-

1.राजा - नृप 2.ब्राह्मण - द्विज 3.दिन - दिवस 4.पाँव - पैर
5. हाथ - हस्त 6. अथिति - मेहमान 7. प्रश्न - सवाल 8. उत्तर - जवाब

4. इन शब्दों के अर्थ हिंदी और मातृभाषा में लिखिए:-

1. king - राजा 2. learned man - विद्वान व्यक्ति 3. guest - मेहमान 4. thorn - काँटा

5. लिंग बदलकर लिखिए :-

1. राजा - रानी

2. शिक्षिका - शिक्षक

3. मोर - मोरनी

4. विद्वान - विदुषी

5. सेविका - सेवक

6. शेरनी - शेर

कविता - 8 - कोयल

I कविता – 1-8 Ines QFM

काली - काली कू - कू करती,

जो है डाली - डाली फिरती।

कुछ अपनी है धुन में ऐंठी ,

छिपी हरे पत्तों में बैठी ,

जो पंचम सुर में जाती है,

वह ही कोयल कहलाती है।

जब जाड़ा कम हो जाता है,

सूरज थोड़ा गरमाता है।

II शब्दार्थ:-

1. कोयल - कोकिल - cuckoo

2. डाली - शाखा - branch

3. धुन - लगन - obsession

4. ऐंठी - हठी - stiffen

5. पंचम सुर - संगीत के सात स्वरों में पाँचवा स्वर 'प' - fifth tone

6. जाड़ा - सर्दी - winter

7. लुभाने वाला - मोहित करना - tempting

8. फलियाँ - दानों से भरे फल - beans

9. कौपल - नई पत्तियाँ - bloom

10. कलियाँ - अधखिले फूल - buds

11. भली - भाँति - अच्छी तरह से - nicely

12. मनोहर - मनमोहक - pleasant

13. रंग - रंग के - अलग - अलग रंगों के - of different colours

III मौखिक प्रश्न उत्तर :-

1. कोयल जिस मौसम में गाती है? उस मौसम को लुभावना क्यों कहा गया है?

उ:- * कोयल के गाने से चारों ओर हरियाली छा जाती है।

* कोयल मधुर स्वर में गाने लगती है ।

इस कारण मौसम को लुभावना कहा गया है।

2. कविता के आधार पर बताइए कि, कोयल की आवाज़ कैसी होती है?

उ:-कोयल 'पंचम स्वर' में गाती है। उसकी आवाज़ मधुर होती है।

IV लिखित प्रश्न उत्तर:-

1. समां निराला कब हो जाता है ?

उ:- कोयल की मधुर धुन सुनकर और मौसम में थोड़ी सी गर्मी पाकर समां निराला हो जाता है।

2. कवि ने कोयल के बारे में क्या बताया है ?

उ:- कवि ने कोयल को अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली और मधुर, पंचम स्वर में गाने वाला पक्षी बताया है।

3. पेड़ - पौधे कब मनोहर दिखाई देते हैं ?

उ:- नए -नए पत्ते, कोयल, कली, फूल, और फलों से लदे वृक्ष मनोहर दिखाई देते हैं ।

VI सही विकल्प चुनिए:-

1. कोयल किस सुर में जाती है ? - पंचम

2. जाड़ा कम होने पर समां कैसा हो जाता है ? - निराला

3. कोयल कविता के कवि कौन है ? - अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

भाषा से.....

1. नीचे दिए गए श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ वर्ग में से ढूंढकर लिखिए :-

- | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1. दिन - दिवस | 3. बाग - बगीचा | 5. गुड़ - मीठी चीज़ | 7. इंद्र - इंद्राणी |
| 2. दीन - गरीब | 4. बाघ - एक पशु | 6. गुर - उपाय | 8. इंदिरा - लक्ष्मी |

2. विलोम शब्द लिखिए:-

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. काली x सफ़ेद | 3. गाना x बजाना | 5. थोड़ा x बहुत |
| 2. अपनी x पराई | 4. जाड़ा x गरमी | 6. नए x पुराने |

3. पर्यायवाची शब्द लिखिए:-

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. कोयल - कोकिल , पिक | 4. सूरज - सूर्य, भानु |
| 2. डाली - टहनी , शाखा | 5. पेड़ - वृक्ष , विटप |
| 3. नया - नवीन , नूतन | 6. फूल - पुष्प , कुसुम |

4. विशेषण शब्द चुनकर लिखिए:- answers :-

- क) हरे ख) पंचम ग) निराला घ) हरे च) नए -नए

5. अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :- answers :-

1. Cuckoo sings hidden among the leaves.
2. Season become pleasant after winter.
3. Trees become ladden with flowers and fruits.
4. Whole atmosphere looks beautiful.

6. वाक्य बनाइए :-

1. डाली - डाली :- कोयल डाली -डाली फिरती है।
2. नए -नए :- वृक्षों में नए-नए पत्ते लगते हैं।
3. रंग-रंग :- रंग-रंग के फूल खिलते हैं।
4. प्यारे - प्यारे :- रंग -बिरंगे गुब्बारे प्यारे -प्यारे लगते हैं।

अनुच्छेद लेखन- पुस्तकालय

1. पुस्तक अर्थात - पुस्तक + आलय-पुस्तकों का घर।
2. यहाँ पुस्तकें एकत्र करके क्रम से रखी जाती हैं।
3. पुस्तकालय वह स्थान है - जहाँ पुस्तकें वर्गीकृत करके क्रम से रखी जाती हैं।
4. निजी , सरकारी , सार्वजनिक , पुस्तकालय के प्रकार हैं।
5. यहां सभी विषयों के किताब पढ़ने को मिलते हैं ।
6. ये छात्रों और आम जनता की जरूरतों को पूरा करते हैं।
7. यहाँ आने से हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ता है।
8. पुस्तक पढ़ने से हमारे शब्द भण्डार में वृद्धि होती है।

। अनुच्छेद लेखन :

हमारा तिरंगा_झंडा

हमारे झंडे में तीन रंग हैं , इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, वह बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग है, जो शांति का प्रतीक है। तीसरा हरा रंग है, जो हरियाली व उन्नति का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र है जो हमें सन्देश देता है , 'चलते रहोरुको मत" । भारत की हरजीत पर हम तिरंगा झंडा लहराते हैं। 15 अगस्त , 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है।

मुहावरे

- 1.आँख का तारा –बहुत प्यारा
- 2.दिन रात एक करना – कड़ी मेहनत करना
- 3.घी के दिए जलाना – खुशियाँ मनाना
- 4.पीठ थपथपाना – शाबाशी देना
- 5 . तरस खाना - पछताना